



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 792) पटना, मंगलवार, 27 सितम्बर 2016

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश  
21 सितम्बर 2016

सं० 3246—जल सं०वि० बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी० दिनांक 04.02.02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियों के पत्रांक-816 दिनांक 25.06.015 द्वारा प्राप्त श्री देव कुमार पिता-स्व० सियाराम यादव भूतपूर्व जंजीर वाहक ग्राम/नगर विहमा, पो०-शिथुआ, थाना-तारापुर, जिला, मुंगेर का आवेदन/अभिलेख उनका आवेदन पत्र, वंशावली प्रमाण-पत्र, अनियोजित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, मैट्रिक प्रमाण अंक प्रमाण-पत्र, इन्टर का अंक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के जाँचोंपरान्त जिला पदाधिकारी-सह अनुकम्पा समिति का ज्ञापांक-727/स्था कटिहार दिनांक 06.06.015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसित के आलोक में श्री देव कुमार, पिता स्व० सियाराम यादव को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक/पत्राचार लिपिक के पद पर वेतनमान-पी०वी०-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्री देव कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर में वर्ग तीन में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व० सियाराम यादव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री देव कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।
3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।
4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
5. अगर श्री देव कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ-पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. श्री देव कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के उप-सचिव (निगरानी) का पत्रांक-2054 दिनांक 30.03.16 एवं बिहार परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना के प्रभारी पदाधिकारी का पत्रांक-BSEB (S.S) PAT/EX/281/D-16 दिनांक 22.08.16 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता की जाँच करा लिया गया है।
8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

मुख्य अभियंता-2 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 792-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>